


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 347] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 30, 1978/अग्रहायण 9, 1900
No. 347] NEW DELHI, THURSDAY, NOV. 30, 1978/AGRAHAYANA 9, 1900

इस भाग में पिन पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1978

अधिसूचना

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 565 (अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के
नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के
वित्त मंत्रालय (राजस्व और नीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 55/75 केंद्रीय उत्पाद-
शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975 में निम्नीलिखित संशोधन और करती हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में, मद 20 और उसमें सम्बद्ध प्रविष्टियों के
पश्चात्, निम्नीलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“21 वस्त्र उद्योग में उपयोग किए जाने वाले उकीर्णित ताम्र रोलर या सिलिण्डर।”

[204/78]

जी. के. पिल्लई, अधीन सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 30th November, 1978

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 565(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 55/75-Central Excise, dated the 1st March, 1975, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after item 20 and the entry relating thereto, the following item shall be inserted, namely :—

“21 Engraved copper rollers or cylinders for use in textile industry.”

[204/78]

G. K. PILLAI, Under Secy.